



प्रेस नोट



जनपद-कौशाम्बी

दिनांक 09.02.2021

70 ली0 अवैध शराब के साथ 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन मे जनपद में अवैध शराब के निर्माण एवं तस्करी के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में विभिन्न थानो द्वारा कुल 04 नफर अभियुक्तो को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 70 ली0 अवैध शराब बरामद की गयी गिरफ्तार सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सम्बन्धित थानो पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तो का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

क्र.सं.	थाना	बरामदगी अवैध शराब	नाम पता अभियुक्त	गिरफ्तार कर्ता
1	महेवाघाट	10 ली0	जगन्नाथ सरोज पुत्र कल्ली सरोज नि0 पश्चिम सरावां थाना महेवाघाट, कौशाम्बी	उ0नि0 श्री मिश्री लाल चौधरी
2	कौशाम्बी	20 ली0	अमर सिंह पुत्र शिवदर्शन नि0 बड़ागढ़वा थाना व जनपद कौशाम्बी	का0 श्री गोविन्द शर्मा
3	सैनी	20 ली0	राजकुमार पुत्र बासुदेव नि0 अमृतापुर थाना सैनी, कौशाम्बी	उ0नि0 श्री मनोज कुमार राय
4	करारी	20 ली0	देवकी पत्नी रामधीरज नि0 दुर्गापुर थाना करारी, कौशाम्बी	उ0नि0 श्री जमालुद्दीन खाँ
		कुल अवैध शराब 70 ली0	कुल गिरफ्तार अभियुक्त 04	

01 वारन्टी अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कौशाम्बी - श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में थाना कौशाम्बी पुलिस प्र0नि0 श्री हेमराज सरोज मय हमराह पुलिस बल द्वारा मु0अ0सं0 68/92 धारा 4/5 एक्सप्लोसिव एक्ट में वारन्टी अभियुक्त 1. भोन्दल पासी पुत्र झरी पासी नि0 ढोकसहा थाना व जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया ।



जनपद मे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत चेकिंग के दौरान की गई कार्यवाही

जनपद मे लाकडाउन के दृष्टिगत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर विभिन्न थानों द्वारा अनावश्यक रूप से बाहर घूमने/ मास्क न लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों के विरुद्ध 50 बैरियर/नाकों एवं थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की गई, चेकिंग के दौरान दो-पहिया/चार पहिया वाहनों को चेक किया गया, जिनमें 173 वाहनों का eचालान किया गया एवं 04 वाहनों का चालान कर 1750 रु0 सम्मन शुल्क वसूला गया_साथ ही बिना मास्क लगाये घूमने एवं सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का उल्लघन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 17 व्यक्तियों से 1700 रुपये जुर्माना वसूला गया ।

निरोधात्मक कार्यवाही मे 18 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी श्री अभिनन्दन के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान में साधारण मारपीट व शांति भंग करने के आरोप में (थाना मंझनपुर से 04, थाना चरवा से 01, थाना पिपरी से 08, थाना पूरामुफ्ती से 03, थाना कोखराज से 01, थाना सैनी से 01) कुल 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया ।